



## Police Custody Officer – जानकारी प्रपत्र

VICTORIA POLICE अपने कार्यबल में विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह अभी पुलिस हिरासत अधिकारियों को भर्ती कर रही है।

Police Custody Officer (PCO) की भूमिका एक उत्तेजक, चुनौतीपूर्ण और पुरस्कृत कैरियर प्रस्तुत करती है जिसमें आप हिरासत में मौजूद व्यक्तियों के प्रबंधन और कल्याण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएँगे/पाएँगी।

PCO की भूमिका ऐसे लोगों के लिए अनुकूल है जो एक स्थिर कैरियर के इच्छुक होते हैं और जो शिफ्ट में काम करने के लिए सक्षम हैं। यह एक सक्रिय भूमिका है और सफल आवेदकों को अपनी ताकत और गतिशीलता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। चूँकि PCO प्रमुखतः हिरासत में मौजूद व्यक्तियों के साथ काम करेंगे, इसलिए उन्हें परिपक्व तथा अनुकूलनीय होना चाहिए और उनके पास प्रबल संवाद और पारस्परिक संबंधों की कुशलताएँ होनी चाहिए।

PCO को पुलिस हिरासत की नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता होगी और उनके पास प्रबल कंप्यूटर कुशलताएँ होनी चाहिए। उन्हें यह भी प्रदर्शित करना होगा कि वे अच्छे चरित्र और प्रतिष्ठा के व्यक्ति हैं और वे अपनी निजी मान्यताओं को परे रख कर गैर-न्यायिक बने रहने में सक्षम हो सकते हैं।

Victoria Police एक ऐसा वातावरण प्रदान करती है जिसमें परिपक्व, अनुकूलनीय और निष्पक्ष विचारधारा वाले लोग कामयाब हो सकते हैं। Victoria Police के एक कर्मचारी के रूप में आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होंगे, जिनमें पाली में कार्य करने के लिए भत्ते और वेतनीय मातृत्व अवकाश शामिल हैं।





## इस भूमिका के उत्तरदायित्व क्या हैं?

- Victoria Police की हिरासत में मौजूद व्यक्तियों के प्रबंधन से संबंधित सभी कर्तव्यों का पालन करना।
- हिरासत में मौजूद व्यक्तियों, कर्मचारियों और उनसे मिलने के लिए आने वाले लोगों का स्वास्थ्य, कल्याण, सुरक्षा और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना।
- हिरासत में मौजूद व्यक्तियों के प्रबंधन, परिवहन, स्थल से परे उपस्थिति या वीडियो लिंक का आयोजन करना।
- स्थापित कानून, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार सभी हिरासत प्रबंधन कार्यों को पूरा करना, जिनमें साधारण पत्राचार, उपस्थिति रजिस्टर व रिपोर्ट बनाना और अन्य प्रशासनिक कार्य शामिल होंगे।
- उँगलियों के निशान लेना, डीएनए का प्रबंधन करना, फोटोग्राफ लेना, प्रामाणिक परीक्षण करना, और आवश्यकता पड़ने पर अदालत में सबूत देना।

## ये पद किन स्थानों पर उपलब्ध होंगे?


1. Ballarat
2. Dandenong
3. Heidelberg
4. Geelong
5. Sunshine
6. Broadmeadows
7. Frankston
8. Mildura
9. Ringwood
10. Moorabbin
11. Wodonga
12. Bendigo
13. Swan Hill
14. Mill Park
15. Warrnambool
16. Morwell
17. Shepparton
18. Wangaratta
19. Bairnsdale
20. Horsham
21. Sale
22. Melbourne West (CBD)

और अधिक जानकारी के लिए कृपया यह वेबसाइट देखें:

[www.policecareer.vic.gov.au/pco](http://www.policecareer.vic.gov.au/pco)



VICTORIA POLICE



## क्या मैं आवेदन करने के लिए पात्र हूँ?

Victoria Police के लिए एक PCO के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होने के लिए आपको निम्नलिखित प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

- 18 साल से अधिक उम्र का होना
- ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी होना
- संपूर्ण या परिवीक्षाधीन ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर्स लाइसेंस धारक होना
- 30 या इससे कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) होना
- यातायात या पार्किंग उल्लंघन के संबंध में कोई बकाया वारंट, भुगतान आदेश या भुगतान योजनाएँ न होना

## आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

एक आवेदक के रूप में Victoria Police में काम करने के लिए चुने जाने से पहले आपको निम्नलिखित कदमों को पूर्ण करना आवश्यक होगा:

- कदम 1:** वेबसाइट [www.policecareer.vic.gov.au/pco](http://www.policecareer.vic.gov.au/pco) के माध्यम से एक ऑनलाइन आवेदन जमा करें
- कदम 2:** प्रारंभिक पृष्ठभूमि जाँच करवाएँ
- कदम 3:** आकलन दिवस में प्रतिभाग लें
- कदम 4:** मनोवैज्ञानिक परीक्षाएँ करवाएँ
- कदम 5:** मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग करवाएँ
- कदम 6:** एक चिकित्सीय मूल्यांकन करवाएँ
- कदम 7:** व्यापक पृष्ठभूमि जाँच करवाएँ
- कदम 8:** फिटनेस परीक्षण करवाएँ
- कदम 9:** एक पैनल साक्षात्कार करवाएँ
- कदम 10:** कार्य-प्रस्ताव प्राप्त करें

और अधिक जानकारी के लिए कृपया यह वेबसाइट देखें:

[www.policecareer.vic.gov.au/pco](http://www.policecareer.vic.gov.au/pco)



VICTORIA POLICE



## मुझे क्या प्रशिक्षण प्राप्त होगा?

PCO को आठ सप्ताह का एक प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा जो Glen Waverly, Melbourne में स्थित Police Academy और उनके नियत पुलिस स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान आपको हिरासत प्रशासन और बन्दी कल्याण प्रबंधन के बारे में सिखाया जाएगा।

Victoria Police अकादमी में प्रशिक्षण कठोर और अनुशासित होता है। यह शारीरिक, शैक्षिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी होता है।

### आवेदन करने से पहले मुझे कौन सी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान में रखना चाहिए?

- प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आवेदकों को तीन महीने की परिवीक्षा अवधि के तहत रखा जाएगा।
- PCO के लिए फिटनेस की जाँच करवानी होगी और इसका एक स्वस्थ स्तर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। रोजगार की पूरी अवधि के दौरान PCO को द्वि-वार्षिक फिटनेस परीक्षण करवाने की आवश्यकता हो सकती है।
- नशीले पदार्थों और एल्कोहल के लिए आवेदकों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाएगा।

- अवलंबी को संगठन की ओएचएस आवश्यकताओं को पूरा करने की ज़रूरत होगी, जिनमें उपकरणों के उपयोग और खतरनाक रसायनों से संबंधित स्थानीय स्तर के प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं।
- आपको कानून का कोई भी मौजूदा ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको अपने प्रशिक्षण के दौरान वह सब कुछ सिखाया जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत होगी।
- इस भूमिका के लिए विचार किए जाने के लिए किसी भी तृतीयक योग्यता की ज़रूरत नहीं है; परंतु आवेदन करते समय आपको 18 साल या इससे अधिक की आयु का होने की आवश्यकता है।
- PCO को दिन, दोपहर और रात की पाली में समयसूची पर नियुक्त किया जाएगा। एक पाली की अवधि 8.06 घंटे होती है और इसमें आधे घंटे का भोजनावकाश शामिल है। आरंभ और समाप्त होने के समय स्थान के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं।
- पीसीओ को एक बेटन, हथकड़ी और ओसी स्प्रे अपने साथ रखना होगा।

## और अधिक जानकारी?

और अधिक जानकारी के लिए यह वेबसाइट देखें: <http://www.policecareer.vic.gov.au/pco>  
या अपने प्रश्नों को इस पते पर ई-मेल करें: [pcoemployment@police.vic.gov.au](mailto:pcoemployment@police.vic.gov.au)

